

## प्रेस नोट

**जवाहर नवोदय विद्यालय, दीव में आयोजित हुआ हिन्दी पखवाडा का उद्घाटन समारोह**

दीव, दिनांक 14/09/2018 - आज दिनांक 14/09/2018 को जवाहर नवोदय विद्यालय, दीव के विद्यालय परिसर में हिन्दी पखवाडा के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री कांवले सर ने दीव में राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक श्री अन्तर्यामी परिडा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था । राजभाषा विभाग, दीव द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह के समापन हो जाने के बाद अपराह्न करीब 01:00 बजे उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर माननीय प्राचार्य सहित मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक ने दीप प्रज्ज्वलित किया व विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया । मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को हिन्दी के महत्व के बारे में समझाया व हिन्दी को विश्वभाषा का दर्जा दिलाने में सभी को प्रेरित किया । प्राचार्य महोदय ने विद्यार्थियों को बताया कि हिन्दी बहुत सरल भाषा है । गुजराती के शब्दों के साथ इसका सामंजस्य है । इसलिए हिन्दी सीखना आसान है । जवाहर नवोदय विद्यालय, दीव में हिन्दी पखवाडा दिनांक 29/09/2018 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ।

हिन्दी पखवाडा के उद्घाटन के बाद विद्यार्थियों के लिए हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें विभिन्न लेखकों, कवियों व महामनिषियों की किताब रखी गई थी । इसका मूल उद्देश्य है बच्चे अगर किताब देखेंगे, तो उन्हें पढ़ने की इच्छा होगी व वे पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जन करेंगे । अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह समापन किया गया ।

